



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 6 फरवरी, 2022

माघ 17, 1943 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN,
ASHOKA ROAD,
NEW DELHI-110001

06th February, 2022,

Dated : _____
Magha 17, 1943 (Saka),

NOTIFICATION

No. 322/UP-LC-LAC/2022: - Whereas, the elections to Uttar Pradesh (UP) Legislative Council (LC) from 35 Local Authorities' Constituencies (LACs) for 36 seats due to fall vacant on 07.03.2022 on the retirement of the sitting members, were announced by the Commission *vide* its Press Note No. ECI/PN/13/2022, dated 28.01.2022. The said elections were to be conducted in 2 phases with scheduled poll dates of 3rd March for 29 constituencies & 7th March, 2022 for 06 constituencies, keeping in view the schedule of the ongoing General Elections to Legislative Assembly in the State, being conducted in 07 phases.

2. Whereas, as scheduled, the Notification No. 322/UP-LC-LAC/2022, calling upon the 29 Local Authorities' Constituencies as in Annexure-'A' for Phase I of the said elections was notified on 04.02.2022.

3. Whereas, the Commission is in receipt of representations dated 04.02.2022 and 05.02.2022 from 2 National Parties, 1 State Party & 2 Registered unrecognized political Parties seeking rescheduling of Uttar Pradesh MLC elections and holding of these elections after the completion of General Elections to the UP Legislative Assembly. The Political Parties have, *inter-alia*, mentioned about difficulties in simultaneously carrying out their election management matters in the two elections *viz.* General Elections to Uttar Pradesh State Legislative Assembly and Biennial elections to Uttar Pradesh Legislative Council. They have mentioned that two elections of different nature may create confusion among the party workers and electors at large. They have also brought to the notice that the electors in MLC elections are party representatives who are actively engaged in the ongoing General Elections. For ensuring active participation of political parties in MLC elections, they have urged the Commission to re-schedule these MLC elections after the completion of General Elections to Uttar Pradesh Legislative Assembly.

4. Whereas, on 04.02.2022, the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh informed that *vide* Gazette Notification dated 28.01.2022, the Government of UP has notified the poll dates of the 7 phases of the General Elections to the Uttar Pradesh Legislative Assembly as public holidays under the Negotiable Instruments Act, 1881 in the districts going to poll on the respective dates. This, as per Section 30 of the

Representation of the People Act, 1951 [R. P. Act, 1951], would require re-scheduling of date of scrutiny and other stages of election for 05 Local Authorities' Constituencies out of 29 Local Authorities' Constituencies being covered in Phase I as the date of scrutiny of nominations for Phase I of UP MLC elections *i.e.* February 14, has been declared a public holiday. Accordingly, this requires rescheduling of MLC elections. Section 153 of the R.P. Act, 1951 empowers the Commission to make necessary amendments in the notification issued by it to extend the time for completion of any election.

5. The Commission has considered the representations from various political parties. It has also considered the input from the CEO Uttar Pradesh which requires an amendment to the notification under Section 153 of the R.P. Act, 1951 as mentioned in para-4 above. The Commission in exercise of powers under Section 153 of the R. P. Act, 1951 read with Article 324 of the Constitution, has amended the notification dated 04.02.2022 as under:-

(a) In respect of the 29 Constituencies notified on 04.02.2022, the process of filing of nomination has been suspended *w.e.f.* 07.02.2022. It shall restart on 15.03.2022 as specified below:-

- (i) 15th March, 2022 (Tuesday), as the restarting date of making nominations
- (ii) 19th March, 2022 (Saturday), as the last date for making nominations
- (iii) 21st March, 2022 (Monday), as the date for scrutiny of nominations
- (iv) 23rd March, 2022 (Wednesday), as the last date for withdrawal of candidatures
- (v) 09th April, 2022 (Saturday), as the date on which polls, if necessary, shall be taken
- (vi) 16th April, 2022 (Saturday), as the date before which election shall be completed;

(b) It is clarified that the nomination papers that may have been filed in respect of any of the above mentioned constituencies on 4th & 5th of February, 2022 shall also be taken up along with other nomination papers that may be filed from 15.03.2022 to 19.03.2022.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Secretary.

Annexure-‘A’

Name of Local Authorities' Constituency
1. Moradabad-Bijnor Local Authorities'
2. Rampur-Bareilly Local Authorities'
3. Budaun Local Authorities'
4. Pilibhit-Shahjahanpur Local Authorities'
5. Hardoi Local Authorities'
6. Kheri Local Authorities'
7. Sitapur Local Authorities'
8. Lucknow-Unnao Local Authorities'
9. Rae-Bareilly Local Authorities'
10. Pratapgarh Local Authorities'
11. Sultanpur Local Authorities'
12. Barabanki Local Authorities'
13. Bahraich Local Authorities'
14. Azamgarh-Mau Local Authorities'
15. Ghazipur Local Authorities'
16. Jaunpur Local Authorities'
17. Varanasi Local Authorities'
18. Mirzapur-Sonbhadra Local Authorities'
19. Allahabad Local Authorities'
20. Banda-Hamirpur Local Authorities'
21. Jhansi-Jalaun-Lalitpur Local Authorities'
22. Kanpur-Fatehpur Local Authorities'
23. Etawah-Farrukhabad Local Authorities'
24. Agra-Firozabad Local Authorities'
25. Mathura-Etah-Mainpuri Local Authorities'
26. Aligarh Local Authorities'
27. Bulandshahr Local Authorities'
28. Meerut-Ghaziabad Local Authorities'
29. Muzaffarnagar-Saharanpur Local Authorities'

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001
06 फरवरी, 2022

दिनांक : _____
माघ 17, 1943 (शक)

अधिसूचना

सं. 322/उ.प्र.-वि.प.-स्था.प्रा./2022- यतः, आयोग द्वारा अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/13/2022 दिनांक 28.01.2022 के जरिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों

से 36 सीटों, जो आसीन सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर 07.03.2022 को रिक्त होने के लिए नियत हैं, के लिए निर्वाचनों की घोषणा की गई थी। राज्य में विधान सभा के लिए चल रहे साधारण निर्वाचन, जो 07 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं, के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्वाचन 29 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3 मार्च, 2022 की और 06 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 मार्च, 2022 की मतदान तिथियों के साथ 2 चरणों में संचालित किए जाने थे।

2. यतः, जैसा कि निर्धारित है, अधिसूचना सं. 322/उ.प्र.-वि.प.-स्था.प्रा./2022, जिसमें उक्त निर्वाचनों के चरण-1 के लिए संलग्नक-‘क’ के अनुसार 29 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा की गई थी, दिनांक 04.02.2022 को अधिसूचित की गई थी।

3. यतः, आयोग को 2 राष्ट्रीय दलों, 1 राज्यीय दल और 2 पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से अभ्यावेदन दिनांक 04.02.2022 और 05.02.2022 को प्राप्त हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचनों को पुनर्निर्धारित किए जाने और इन निर्वाचनों को उ.प्र. विधान सभा के साधारण निर्वाचनों के पूरे होने के बाद आयोजित करने की मांग की गई है। राजनीतिक दलों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, दोनों निर्वाचनों अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन में अपने निर्वाचन प्रबंधन मामलों को साथ-साथ चलाने में कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उन्होंने उल्लेख किया है कि अलग-अलग स्वरूप के दो निर्वाचन दलीय कार्यकर्ताओं और समग्रतः निर्वाचकों के बीच भ्रम पैदा कर सकते हैं। उन्होंने यह बात भी ध्यान में लाई है कि विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचनों में निर्वाचक दलीय प्रतिनिधि होते हैं जो चल रहे साधारण निर्वाचनों में सक्रियतापूर्वक लगे हुए हैं। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचनों में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने आयोग से इन विधान परिषद निर्वाचनों को उत्तर प्रदेश विधानसभा के साधारण निर्वाचनों के पूरा होने के बाद फिर से निर्धारित करने का आग्रह किया है।

4. यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 04.02.2022 को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28.01.2022 के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के साधारण निर्वाचनों के 7 चरणों की मतदान तिथियों को संबंधित तिथियों पर मतदान होने वाले जिलों में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश के रूप में अधिसूचित किया है। इससे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अनुसार चरण-1 में शामिल किए जा रहे 29 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में से 05 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संवीक्षा की तिथि और निर्वाचन के अन्य चरणों का पुनर्निर्धारण अपेक्षित होगा क्योंकि उ.प्र. विधान परिषद सदस्य निर्वाचन के पहले चरण के लिए नाम-निर्देशनों की संवीक्षा की तिथि अर्थात् 14 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। तदनुसार, इससे विधान परिषद सदस्य निर्वाचनों का पुनर्निर्धारण अपेक्षित हो जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 आयोग को किसी भी निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने के लिए उसके द्वारा जारी अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने के लिए सशक्त बनाती है।

5. आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के अभ्यावेदनों पर विचार किया है। आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश से मिले इनपुट पर भी विचार किया है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 153 के अंतर्गत अधिसूचना में संशोधन अपेक्षित करता है जैसा कि ऊपर पैरा-4 में उल्लिखित है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 153 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 04.02.2022 में निम्नलिखित के अनुसार संशोधन किया है:

-

(क) दिनांक 04.02.2022 को अधिसूचित 29 निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में, नाम-निर्देशन दाखिल करने की प्रक्रिया 07.02.2022 से निलंबित कर दी गई है। यह 15.03.2022 को पुनः शुरू होगी जैसा कि नीचे निर्दिष्ट किया गया है:-

- | | |
|---|---------------------------|
| (i) -नाम निर्देशन पुनः शुरू करने की तिथि | -15 मार्च, 2022 (मंगलवार) |
| (ii) -नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि | -19 मार्च, 2022 (शनिवार) |
| (iii) -नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तिथि | -21 मार्च, 2022 (सोमवार) |

- (iv) -अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि -23 मार्च, 2022 (बुधवार)
- (v) -वह तिथि, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान कराया जाएगा -09 अप्रैल, 2022 (शनिवार)
- (vi) -वह तिथि जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा; -16 अप्रैल, 2022 (शनिवार)

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जो भी नाम-निर्देशन पत्र 4 और 5 फरवरी, 2022 को भरे गए होंगे उन पर भी ऐसे अन्य नाम-निर्देशन पत्रों के साथ विचार किया जाएगा जो 15.03.2022 से 19.03.2022 तक भरे जा सकते हैं।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र का नाम
1. मुरादाबाद-बिजनौर स्थानीय प्राधिकारी
2. रामपुर-बरेली स्थानीय प्राधिकारी
3. बदरुथु स्थानीय प्राधिकारी
4. पीलीभीत-शाहजहांपुर स्थानीय प्राधिकारी
5. हरदोई स्थानीय प्राधिकारी
6. खीरी स्थानीय प्राधिकारी
7. सीतापुर स्थानीय प्राधिकारी
8. लखनऊ-उन्नाव स्थानीय प्राधिकारी
9. रायबरेली स्थानीय प्राधिकारी
10. प्रतापगढ़ स्थानीय प्राधिकारी
11. सुल्तानपुर स्थानीय प्राधिकारी
12. बाराबंकी स्थानीय प्राधिकारी
13. बहराइच स्थानीय प्राधिकारी
14. आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी
15. गाजीपुर स्थानीय प्राधिकारी
16. जौनपुर स्थानीय प्राधिकारी
17. वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी
18. मिर्जापुर-सोनभद्र स्थानीय प्राधिकारी
19. इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी
20. बांदा-हमीरपुर स्थानीय प्राधिकारी
21. झांसी-जालौन-ललितपुर स्थानीय प्राधिकारी
22. कानपुर-फतेहपुर स्थानीय प्राधिकारी
23. इटावा-फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी
24. आगरा-फिरोजाबाद स्थानीय प्राधिकारी
25. मथुरा-एटा-मैनपुरी स्थानीय प्राधिकारी
26. अलीगढ़ स्थानीय प्राधिकारी
27. बुलन्दशहर स्थानीय प्राधिकारी
28. मेरठ-गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी
29. मुजफ्फरनगर-सहारनपुर स्थानीय प्राधिकारी

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 600 राजपत्र-2022-(1370)-588 प्रतियां-(कम्प्यू0 / टी0 / आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 109 सा0 निर्वाचन-2022-(1371)-200 प्रतियां-(कम्प्यू0 / टी0 / आफसेट)।